



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]  
No. 434]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

**लघुशीर्ष और लागू होना**—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग नियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा(1) छांता प्रदाता शिक्षियों द्वा योग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के तहत यथा अपेक्षित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम, 2006 को संशोधित करने के लिए केब्द सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं।  
अर्थात्:-

1. लघुशीर्ष और लागू होना —(1) ये नियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम 2006 है।  
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अर्थात् (लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम, 2006 में फार्म 'क' के लिए निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

## फार्म-क

(कृपया अंक 3(4) देखिए)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

वित्तीय विवरण (लाभ न कमाने वाले संगठन) का फार्म

नाम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

के अनुसार तुलनपत्र

(राशि—लाखों)

संगठ/पूँजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संगठ/पूँजीगत निधि	1		
रिजर्व और अंतिरिक्त	2		
निर्धारित/अक्षय निधियां	3		
प्रतिशूलि ऋण और उधार ली गई राशि	4		
जीर प्रतिशूलि ऋण और उधार ली गई राशि	5		
आस्थानीत केंट देनदारियां	6		
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	7		
कुल			
सम्पत्ति			
निर्धारित सम्पत्ति	8		
निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	9		
अन्य निवेश	10		
वर्तमान सम्पत्ति, ऋण, अधिग्रहणादि	11		
विविध व्यय (बदलेखाते में न ढाली गई अथवा समाचोड़ित न की गई सीमा तक)			
कुल			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकर्षित देनदारियां तथा लेखाओं से सम्बन्धित ठिपणियां	25		

वित्तीय विवरण (लाभ न कमाने वाले संगठन) का फार्म

नाम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

को समाप्त अवधि/वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि—लाखों)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवा से आय	12		
अनुदान/राज-सहायता	13		
शुल्क/अंशदान	14		
निवेश से आय (निवेश निर्धारित/अक्षय निधि/निधियों में अंतरित की गई निधियों से आय)	15		
राजस्व, प्रकाशन इत्यादि से आय	16		
अर्जित आय	17		
अन्य आय	18		
दूसरीजीत माल और जारी कार्यों के रद्दक में कमी/घुस्ति	19		
कुल (क)			
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	21		
अनुदान, राज-सहायता इत्यादि पर व्यय	22		
व्याज	23		
कमी (अनुसूची- 8 के सम्बन्ध में तर्थ की राजीत पर नियमित योग)			
कुल (ख)			
दूसरी अधिक आय के कारण शेष (क-ख)			
विशेष रिजर्व में अंतरण (प्रत्येक को विशेषरूप किया जाए)			
राजस्व रिजर्व को/से अदरण			
अक्षय/पूँजीगत/अन्य निधि में ले जाए गए अंतिरिक्त (घाटे) का शेष (कृपया विवरित किया जाए)	24		
महत्वपूर्ण ले जाए गीता			
आकर्षित देनदारियां और लेखाओं से सम्बन्धित ठिपणियां।	25		

वित्तीय विवरण (लाभ न करने वाले संगठन) का पर्याम  
जारी : राष्ट्रीय अन्पसंचयक शिक्षा संस्था आयोग

.....के अनुसार तुलनपत्र के भाग की अनुसूची

(दायि रूपये में)

अनुसूची 1 - संग्रह/पूँजीगत निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरम्भ में शेष		
जमा : संग्रह/पूँजीगत निधि हेतु अंशदान		
जमा/(कटौती) परिवर्तित वास्तविक आय/(खर्च) का शेष		
आय तथा व्यय लेखा		
वर्ष की समाप्ति पर शेष		
<b>अनुसूची 2 - रिजर्व और अतिरिक्त</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पिछला वर्ष</b>
1. पूँजीगत रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान वृद्धि		
कमी: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्गृहांकन रिजर्व :		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान वृद्धि		
कमी: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष रिजर्व :		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान वृद्धि		
कमी: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामाजिक रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान वृद्धि		
कमी: वर्ष के दौरान कटौती		
<b>कुल</b>		

वित्तीय विवरण (लाभ न करने वाले संगठन) का पर्याम

जारी : राष्ट्रीय अन्पसंचयक शिक्षा संस्था आयोग

.....के अनुसार तुलनपत्र के भाग की अनुसूची

(दायि रूपये में)

अनुसूची 3- निर्धारित/अक्षय निधियाँ	निधिवार खौद				<b>कुल</b>
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	
क) शुल्यात में निधि					
ख) निधि में वृद्धि					
i) दान/अनुदान					
ii) निधियों में किए गए निवेश पर आय					
iii) अन्य वृद्धि (विशिष्ट प्रवृत्ति)					
कुल (क-ख)					
ग) निधियों के उपयोग हेतु उपयोग/खर्च					
i) कैपिटल खर्च					
- फिक्सेड एसेट					
- अन्य					
कुल					
ii) राजस्व व्यय					
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि					
- किराया					
- अन्य प्रशासनिक खर्च					
कुल					
कुल (ग)					
वर्ष की समाप्ति पर कुल शेष (क-ख-ग)					
बोट					
1) - अनदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रारंभिक शीर्षों के तहत तथ्यों की घोषणा की जाएगी।					
2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाए तथा किसी अन्य निधि के साथ न मिलाया जाए।					

वित्तीय विवरण (लाभ न करने वाले संगठन) का फार्म

नाम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

.....के अनुसार तुलनपत्र के भाग की अनुसूची

(राशि रूपये में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 4- प्राप्त लोन तथा उधार :		
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (बताएं)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) टर्म लोन		
ख) अर्जित ब्याज तथा देय		
4. बैंक		
क) टर्म लोन - उपर्युक्त ब्याज तथा देय		
ख) अन्य लोन (बताएं) - उपर्युक्त ब्याज तथा देय		
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां		
6. ऋणपत्र तथा बन्धपत्र		
7. अन्य (बताएं)		
कुल:		
नोट: एक वर्ष में देय राशियां		

वित्तीय विवरण (लाभ न करने वाले संगठन) का फार्म

नाम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

.....के अनुसार तुलनपत्र के भाग की अनुसूची

(राशि रूपये में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची-5 गैर-प्रतिभूति ऋण और उधार ली गई राशि		
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (कृपया बताएं)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) टर्म लोन		
ख) अन्य लोन(बताएं)		
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां		
6. डिब्बेचर तथा बोंड		
7. फिक्सेड डिपोजिट		
8. अन्य (बताएं)		
कुल:		
नोट: एक वर्ष के दौरान देय राशि		
अनुसूची-6 अस्थगित केंडिट देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) कैपिटल इविचपर्सेट तथा अन्य एसेट के भाराकान्ति के द्वारा प्राप्त स्वीकृत		
ख) अन्य		
कुल:		
नोट: एक वर्ष के दौरान देय राशि		

वित्तीय विवरण (लाभ न करने वाले संगठन) का पत्र  
नाम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आवोग  
.....के अनुसार तुलनापत्र के आग की अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची-7 वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) वर्तमान देनदारियाँ		
1. स्वीकृत		
2. संक्षी क्रेडिट्स		
क) बस्तुओं हेतु		
ख) अन्य		
3. प्राप्त एडवांस		
4. उपायित ब्याज परन्तु देय नहीं		
क) प्राप्त लोन/उधारियाँ		
ख) प्राप्त व किए गए लोन/उधारियाँ		
5. सांविधिक देनदारियाँ		
क) अतिदेय		
ख) अन्य (बताएं)		
6. अन्य मौजूदा देनदारियाँ		
आयकर		
सी.जी.एच.एस.		
लाइरेंस फीस		
जी.पी.एफ.		
पी.सी.ए.		
एस.सी. एडवांस		
सोसाइटी देयता		
बिक्री कर		
पोस्टल लाइफ इश्योरेस		
लोन तथा एडवांस की वसूली		
एच.ओ.आर. फार्म हेतु रेल मंत्रालय		
एयर एक्सेंज आईर हेतु इंडियान एयरलाइंस		
सिक्योरिटी डिपाजिट		
अरबेस्ट मरी डिपाजिट		
अन्य (बताएं)		
कुल(क)		
ख. प्रावधान		
1. ट्रैक्स हेतु		
2. पैशन, योजुइटी तथा अन्य रिटायरमेंट लाभ		
एन.सी.एम.ई.आई. प्रोविडेंट फंड		
1. प्रारम्भिक शेष		
2. अंशदान		
3. एडवांस की वसूली		
4. ब्याज		
कुल		
(कमी) पेमेंट/इनवेस्टमेंट		
एन.सी.एम.ई.आई. युप इश्योरेंश स्कीम फंड		
सेविंग फंड		

1. प्रारंभिक शेष			
2. अंशदाता			
3. एडवांस की वसूली			
4. ब्याज			
कुल			
(कमी) पेमेंट/इनवेस्टमेंट			
इंश्योरेंश फंड			
1. प्रारंभिक शेष			
2. अंशदाता			
3. एडवांस की वसूली			
4. ब्याज			
कुल			
(कमी) पेमेंट/इनवेस्टमेंट			
एव. की.एम.डी.आई. पैशन तथा अन्य रिटायरमेंट लाभ			
1. प्रारंभिक शेष			
2. अंशदाता			
3. एडवांस की वसूली			
4. ब्याज			
कुल			
(कमी) पेमेंट/इनवेस्टमेंट			
सकल योग			
3. एक्यूम्यूलेटेड लीब एनकैशमेंट			
4. ड्रेड वारेंटी/वलेम			
5. अन्य (बताएं)			
सिव्हिरिटी हिपाजिट			
अनेस्टमनी हिपाजिट			
अन्य			
कुल (ख) (ख)			
कुल (क + ख)			

वित्तीय विवरण (लाभ न कमाने वाले संगठन) का फार्म  
नाम : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग  
.....के अनुसार तुलनपत्र के भाग की अनुसूची

(राशि रूपये में)

ड.) फिराये पर लिए गए												
आहोते की भरम्भत												
च) अन्य												
3. ब्लॉट मशीनरी तथा उपकरण												
4. वाहन												
5. फर्नीचर फिक्सचर्स												
6. कार्यालय उपकरण												
7. कम्प्यूटर/प्रैरीफरल												
8. इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन												
9. पुस्तकालय पुस्तकें												
10. ट्यूबवैल तथा जल आपूर्ति												
11. अन्य अचल सम्पत्ति												
12. उपहार/दान सम्पत्ति												
मौजूदा वर्ष का कुल												
पिछला वर्ष												
ख. जारी मुख्य कार्य												
कुल												
(किसाया व खरीद के आधार पर ऊपर शामिल की गई परिसम्पत्तियों की लागत के अनुरूप टिप्पणियां दी जाएं)												

वित्तीय विवरण (लाभ न कमाने वाले संगठन) का फार्म

नाम : राष्ट्रीय अन्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

.....के अनुसार तुलनपत्र के भाग की अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची- 9 निर्धारित/अक्षय निधि में	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
3. शेयर		
4. डिबेचर तथा बांड		
5. सब्सिडियरीज तथा ज्याइंटेचर		
6. अन्य (बताएं)		
कुल		

अनुसूची 10- विवेश-अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
3. शेयर		
4. डिबेचर तथा बांड		
5. सब्सिडियरीज तथा ज्याइंटेचर		
6. अन्य (बताएं)		
कुल		

आर्थिक विवरण प्रपत्र (गैर लाभकारी संस्थान)  
 इकाई का नाम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग  
 के तुलनपत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि- रु0)

अनुसूची- ।। घालू परिसम्पत्ति, कर्ज, पेशगी, आदि	प्रचलित वर्ष	पिछला वर्ष
क. घालू परिसम्पत्ति:		
1. बउसूची		
क) भंडार तथा अतिरिक्त		
ख) औजार		
ग) माल		
तैयार माल		
घालू कार्य		
कच्चा माल		
2. विविध देनदार		
क) छ: महीने से ज्यादा बकाया ऋण		
ख) अन्य		
3. रोकड़ शेष वैक/ड्राफट एवं अग्रदाय समेत)		
4. बैंक		
क) अनुसूचित बैंक		
- घालू खाते		
- जमा खाते		
- बचत खाते		
ख) गैर अनुसूचित बैंक		
- घालू खाते		
- जमा खाते		
- बचत खाते		
5. डाकघर- बचत खाते		
कुल (क)		

आर्थिक विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संरथा)  
 निकाय का नाम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान संस्थान  
 के तुलनपत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि- रु0)

अनुसूची- ।।- घालू परिसम्पत्ति, कर्ज, पेशगी (कमशः)	प्रचलित वर्ष	पिछला वर्ष
ख) कर्ज, पेशगी एवं अन्य परिसम्पत्ति		
1. कर्ज		
क) अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ष		
1. शृङ् विभाषण पेशगी		
2. मोटर कार/पी.सी. पेशगी		
3. स्कूटर/एम.सी.पेशगी		
4. अन्य पेशगी		
1. साइकिल/पंचा पेशगी		
11. चिकित्सा पेशगी		
111. प्रतिनियुक्ति को जी.पी.एफ.		
ख) इस इकाई के उद्देश्यों/कार्यक्रमों से संबंधित अन्य इकाईयाँ		
ग) अन्य (विशेष)		
2. नकट अवया वर्तु में वसूली करने योग्य पेशगी एवं अन्य राशियां		
क) पूँजीगत लेखा पर		
1. झी.पी. छब्बी ढी. को पेशगी		
2. झी.ए.वी.पी. को पेशगी		
3. पूर्तिकार को पेशगी		
4. अन्य पेशगी		
1. एनओई.टी.एनआईसीएसआई		
11. अधिकारीण		

111. संपदा निदेशालय				
5. अन्य				
क) पूर्व भ्रगतान				
1. सी.पी.डब्ल्यू.डी. को पेशगी				
2. डी.ए.वी.पी. को पेशगी				
3. परिवकारों के लिए घूमेकार को पेशगी				
4. अन्य पेशगी				
1. एनआईसी/एनआईसीएसआई				
11. अधिकारीगण				
111. संपदा निदेशालय				
5. अन्य				
ग) अन्य				
1) प्रतिभूति जमा				
11) बयाना				
111) अन्य				
3. प्रोद्भुत आमदानी				
क) अकाय निधियों का निवेश				
1) भूमाए गए निवेशों का अंकित मूल्य				
11) निवेशों पर ब्याज				
111) अन्य (प्रतिभूति जमा/बयाना)				
ख) निवेश अवृद्धि (विविदिष्ट)				
ग) कर्ज एवं पेशगी				
1) गृह निर्माण पेशगी				
2. नोटरकार/पी.सी. पेशगी				
3. रसूल/एम.सी. पेशगी				
4. अन्य पेशगी				
1. साइकिल/पंखा पेशगी				
11. चिकित्सा पेशगी				
111. प्रतिनिवित्तों को जी.पी.एफ.				
घ) अन्य (वसूली योज्य आमदानी)				
1) बैंक में नकदी पर ब्याज				
11) कर्मचारियों को पेशगी पर ब्याज				
111) प्रकाशन का विकाय				
111) आयोग द्वारा की गई शुल्क				
1/) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य औषधकारी का योगदान				
(3.) विविध प्राप्तियाँ				
1) कोर्ट अवाई				
2) समाचार पत्र विकाय				
3) ज्यादा भ्रगतान की गई वेतन की वसूली				
4) भूमाए जाने गए बैंकों के मूल्य की वापसी				
5) दूसराष किराए की वसूली				
6) पुरानी कारों की विकाय				
7) वापस न की गई पुस्तकों का मूल्य				
8) सहायता की वापसी				
9) भूमाए गए अवकाश की वापसी				
10) प्रतिभूति जमा/बयाना जमा को जब्त करना				
11) एनरीएम्झाई के अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली				
12) अनुपयोगी वस्तुओं के विकाय/बीलामी से प्राप्तियाँ				
13) अन्य				
घ) अन्य				
4. प्राप्ति योज्य दावे				
कुल (ख)				
कुल (क+ख)				

आर्थिक विवरण प्रपत्र (अलाभाकारी संस्थान)  
 इकाई का नाम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग  
 काल/वर्ष ती समाप्ति पर आय एवं व्यय विवरण से संबंधित अनुसूचियाँ

(राशि- रु0)

अनुसूची 12- विक्रय/सर्विस से आमदनी	प्रबंधित वर्ष	पिछला वर्ष
1. विक्रय से आमदनी		
क) बनाए हुए माल का विक्रय		
ख) कच्चे माल का विक्रय		
ग) कबाड़ का विक्रय		
2. सेवा से आमदनी		
क) श्रम एवं साधन वार्ज		
ख) व्यावसायिक/सालाहकारी सेवाएं		
ग) एजेन्सी कमीशन एवं ब्रोकरेज		
घ) सेवाओं की संभाल (सामाज/संपत्ति)		
इ) अन्य (विविरेष्ट)		
<b>कुल</b>		

अनुसूची- 13 अनुदान/सहायकी (प्राप्त  
सहायकी एवं अटल अनुदान)

	प्रबंधित वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकारे		
3. शासकीय एजेन्टी		
4. संस्थाएँ/कल्याणकारी विभाग		
5. अन्तर्राजीय संस्थाएं		
6. अन्य (विविरेष्ट)		
<b>कुल</b>		

आर्थिक विवरण प्रपत्र (अलाभाकारी संस्थान)  
 इकाई का नाम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग  
 काल/वर्ष ती समाप्ति पर आय एवं व्यय विवरण से संबंधित अनुसूचियाँ

(राशि- रु0)

अनुसूची - 14-शुल्क/वंदे	प्रबंधित वर्ष	पिछला वर्ष
1. दाखिला शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/		
3. सेमिवार्ष/प्रायोगिक फीस		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य		
6. सुदूरा के अधिकार अधिक्रियम के अंतर्गत शुल्क		
<b>कुल</b>		

बोट : इस मद से संबंधित अकाउंटिंग पोलिसिज का चारा या जाला अलियार्द है।

अनुसूची- 15-जिवेश से आमदनी	विशेष प्रयोजन के लिए नियमित विधि का द्वारा	प्रबंधित वर्ष	पिछला वर्ष	जिवेश अन्य	
				प्रबंधित वर्ष	पिछला वर्ष
1. व्याज					
क) शासकीय स्पेक्युलरिटी					
ख) अन्य ब्रांड/डिवैन्यर					
2. लाभांश					
ग) रोटर्ट					
घ) नियुत्यल फैड रिकार्डरी		+			
ज) किराया					
4. अन्य (विविरेष्ट)					
<b>कुल</b>					
विशेष प्रयोजन के लिए नियमित निधि/अक्षय निधि में हस्तातिरि					

वित्तीय विवरण प्रपत्र (ग्रैं-लाभकारी संस्था)  
निकाय का नाम: - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग  
काल/वर्ष की समाप्ति पर आय एवं व्यय की अनुसूचियाँ

(लप्तये में)

अनुसूची-16- रायल्टी प्रकाशन आदि से आय	प्रबलित वर्ष	पिछला वर्ष
1. रायल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (विनिर्दिष्ट)		
<b>कुल</b>		

अनुसूची 17- ब्याज प्राप्ति	प्रबलित वर्ष	पिछला वर्ष
1. जमा पर		
क) अनुसूचित बैंक से		
ख) गैर अनुसूचित बैंक से		
ग) संस्थान से		
घ) अन्य		
2. बचत खाते पर		
क) अनुसूचित बैंक से		
ख) गैर अनुसूचित बैंक से		
ग) डाकघर बचत खाते पर		
घ) अन्य		
3. लोन पर		
क) कर्मचारी/स्टफ		
ख) अन्य		
4. उधार देता तथा अन्य प्राप्तकर्ता पर ब्याज		
<b>कुल</b>		
टिप्पणी: ओरों पर भद्रता गया कर उल्लेख किया जाना है		

वित्तीय विवरण प्रपत्र (ग्रैं-लाभकारी संस्था)  
निकाय का नाम: - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग  
काल/वर्ष की समाप्ति पर आय एवं व्यय की अनुसूचियाँ

(लप्तये में)

अनुसूची 18- अन्य आय	प्रबलित वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसम्पत्ति के विक्रय पर लागू		
क) अपना परिसम्पत्ति		
ख) अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति		
2. एक्सपोर्ट इंडेपेंट्रिय		
3. मिश्रित सेवाओं द्वारा शुल्क		
4. मिश्रित आदि		
i) व्यावालय पुरस्कार		
ii) बैंकर कागज/अवधार की विक्री		
iii) उदाधिगतान की गई वेतन की वसूली		
iv) भूमि नहीं गए घेंकों की मूल्य की वापसी		
v) ट्रेनिंग चार्ज की उन्नप्राप्ति		
vi) पुरानी कारों की विक्री		
vii) वापस न की गई प्रस्ताकों का मूल्य		
viii) सहायता की वापसी		
ix) भूगतान किए गए अवकाश की वापसी		
x) प्रतिश्रुति जमा/व्यावाह जमा को जमा करना		
xi) एनसीएमईआई के कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली		
xii) अनुपश्ची वरतुओं के विक्रय/लीलामी से प्राप्तियाँ		
xiii) अन्य		
<b>कुल</b>		

वित्तीय विवरण प्रपत्र (ग्रैं-लाभकारी संस्था)  
निकाय का नाम: - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग  
काल/वर्ष की समाप्ति पर आय एवं व्यय की अनुसूचियाँ

(लप्तये में)

अनुसूची- 19 तैयार भाल के स्टॉक में बृद्धि/(कमी) तथा कार्य में प्रगति	प्रबलित वर्ष	पिछला वर्ष
1. बद्द टर्टेंक		
क) तैयार भाल		
ख) कार्य में प्रगति।		
2. कमी: खुला टर्टेंक		
क) तैयार भाल		
ख) कार्य में प्रगति		
वास्तविक बृद्धि/(कमी)(1-2)		

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)  
 जिकाय का नाम: - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैकिंक संस्थान आयोग  
 काल/वर्ष की समाप्ति पर आव एवं व्यय की अनुसूचियाँ

(क्रमांक में)

अनुसूची- 20- स्थापना खर्च	प्रबलित वर्ष	पिछला वर्ष
1. वेतनमान		
क) वेतनमान (अधिकारी तथा सदस्यों)		
ख) वेतनमान (अधिकारियों और स्थापना)		
2. ऋणदरी		
3. व्यावसायिक तथा अन्य सेवाओं की अदायगी		
4. याता खर्च		
(i) विदेश दौरे		
(ii) घरेलू दौरे		
5. असेंटिंग अवृत्त भत्ता तथा दायित्व		
6. मैट्रिकल तथा स्वास्थ्य रक्षण सुविधाएं		
7. अन्य स्थापना चार्ज		
(i) याता अवकाश भत्ता		
(ii) ट्रॉशन शुल्क		
8. कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर खर्च, तथा सीमांत हितलाप		
(i) पेशन का कम्प्यूटर सब		
(ii) घुटियों के एवज में भुगतान		
(iii) उपदान		
(iv) छीमा		
(v) अन्य सेवानिवृत्ति सुविधाएं।		
9. (क) तदर्थ जिवोक्ताओं का छुट्टी वेतनमान तथा पेशन योगदान		
(ख) एनटीएमईआई कर्मचारियों का छुट्टी वेतनमान तथा पेशन योगदान		
10. भविष्य जिवि योगदान		
11. अन्य योगदान		
12. कर्मचारी कल्याण खर्च		
13. अन्य (विविहित)		
<b>कुल</b>		

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)  
 जिकाय का नाम: - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैकिंक संस्थान आयोग  
 काल/वर्ष की समाप्ति पर आव एवं व्यय की अनुसूचियाँ

(क्रमांक में)

अनुसूची- 21 अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	प्रबलित वर्ष	पिछला वर्ष
1. सेनियर/सॉलेन्ट खर्च		
2. अन्य संस्थाओं की सहायता		
3. ट्रैफिकल तथा फैक्स खर्च		
4. किराया तथा कर		
5. अखबार/पत्रिका, अन्य		
6. विज्ञापन तथा प्रचार		
7. डाक तथा ट्रैकिंग		
8. लौवरीज		
9. स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग		
10. स्टेशनरी		
11. प्रिंटिंग		
12. प्रकाशन		
13. खट्टीदारी तथा अन्य मिश्रित खर्च		
क) कार्यालय खर्च		
ख) अन्य मिश्रित खर्च		
ग) राजभाषा उन्नयन पर खर्च		
14. पानी तथा डिजली चार्ज		
15. परम्पत एवं रखरखाव		
क) भकान		
ख) मशीनरी एवं कम्प्यूटर सञ्चान सर्वर तथा अन्य आईटी स्रोते		
ग) फॉर्म्सिंग तथा फैक्सघर		
घ) बाहन तथा उसका रखरखाव		
इ) अन्य (विविहित)		
16. फोटोल तथा स्नेहक		
17. हास्पीटल्सी खर्च		
18. लेखा शुल्क		
19. कानूनी तथा अन्य व्यावसायिक खर्च		

18. बीमार			
19. अल्पसंख्यक शैक्षणिक पर लोज			
20. प्रशिक्षण संचय			
21. शुल्क			
22. खराब तथा संदेहास्पद उदासी/अग्रेम का विवर			
23. लाभसूची शेष राशि बट्टे आते में छाली गयी			

24.	पैकेज प्रभार		
25.	भाइया और अन्येषण व्यय		
26.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
(ii)	अनावर्ती पौँजीगत व्यय		
1.	भूमि		
2.	भवन (नवनिर्माण)		
3.	फैनीचर एवं जुड़नार		
4.	मशीनरी और उपकरण		
5.	मोटर वाहन		
6.	पुस्तकों और प्रकाशन		
7.	कम्प्यूटर, सर्वर और अन्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी संसाधन		
8.	नवनिर्माण		
क)	स्थिति		
ख)	इलैक्ट्रिकल		
9.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल			

### वित्तीय विवरण का प्रारूप (अलाभकारी संगठन)

संस्था का नाम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग

की अधिकारी/को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि रु. में)

अनुसूची 22- अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	प्रवर्तित वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त सब्सिडियों		
कुल		

नोट: अनुदानों/सब्सिडियों की राशि के साथ-साथ संस्थाओं, उनके कार्यकलापों का प्रकटीकरण किया जाना है।

अनुसूची 23- व्याज	प्रवर्तित वर्ष	पिछला वर्ष
क) आवधिक ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

## वित्तीय विवरण का प्रारूप (अलाभकारी संगठन)

संस्था का नामः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग

की अवधि/को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

## अनुसूची 24—महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (विस्तृत)

1	लेखाकरण अभिसमय
	यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वित्तीय विवरण पिछले लागत अभिसमयों तथा लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।
2	वस्तुशूली मूल्यांकन
2.1	भण्डारी एवं अतिरिक्त सामानों (कलपुर्जों सहित) का लागत-मूल्यांकन किया जाता है।
2.2	कच्चे सामान, आधे तैयार माल और तैयार माल का मूल्य निम्नतर लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर विशिष्ट किया जाता है। लागतें आँकी गई औसत लागत पर आधारित होती हैं। आधे तैयार और तैयार सामान की लागत सामग्री, श्रमशक्ति और अन्य सबूद्ध खर्चों पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती है।
3	निवेश
3.1	“दीर्घकालीन निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की लागत में, अस्थायी रूप को छोड़कर गिरावट के प्रावधान किए जाते हैं।
3.2	‘चाल’ के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत से कम तथा उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य पर विद्युती के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश पर वैयक्तिक रूप से विचार करते हुए और न कि वैष्विक आधार पर किए जाते हैं।
3.3	लागत में दलाली, हस्तांतरण टिकटों जैसे अधिग्रहण खर्चों को शामिल किया जाता है।
4	उत्पाद शुल्क
	संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं, विवरण के अतिरिक्त, के संबंध में उत्पाद शुल्क हेतु देयता को विनिर्माण के पूरा होने पर शामिल किया जाता है और उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित वस्तुओं के लिए वर्ष के अंत में प्रावधान किया जाता है।
5	स्थायी परिसंपत्तियाँ
5.1	स्थायी परिसंपत्तियों आयात भाड़े, शुल्क तथा कर एवं अधिग्रहण से संबंधित आकरिक और प्रत्यक्ष खर्चों को शामिल करते हुए अधिग्रहण लागत पर नियत की जाती है। विनिर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबद्ध संचालनपूर्व ऊर्जा (पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज को शामिल करते हुए) पूँजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का एक भाग होते हैं।
5.2	जैर-वित्तीय अनुदानों (समय निधि से अलग) के माध्यम से प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों को आरक्षित पूँजी से संगत जमा द्वारा विर्धारित मूल्यों पर पूँजीकृत किया जाता है।
6	अधमूल्यन
6.1	स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु मौजूदा विदेशी मुद्रा देयताओं के परिवर्तन के द्वारा होने वाली लागत समायोजनाओं पर होने वाले मूल्यद्वास को छोड़कर आयकर अधिकार्यम, 1961 में दी गई दरों के अनुसार सरल पद्धति से मूल्यद्वास का प्रावधान किया जाता है जिसका संबंधित परिसंपत्तियों के अवशिष्ट समय में परिशोधन किया जाता है।
6.2	वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में जमा/से कठोरी के संबंध में मूल्यद्वास पर व्याप्त अनुपात आधार पर विचार किया जाता है।
6.3	5000 रु. अथवा उससे कम लागत पर प्रत्येक परिसंपत्ति पूरी तरह से प्रदान की जाती है।
7	विविध ऊर्जा
	आखण्णित राजस्व व्यय को उसके होने के वर्ष से 5 वर्षों की अवधि पूरा होने पर छोड़ दिया जाता है।
8	विकियों में उत्पादकर शामिल है और वे विकी आय, छूट तथा व्यापार छूट उपरांत निवल होती हैं।
9	सरकारी अनुदान/सहायता
9.1	परियोजनाओं को स्थापित करने की पूँजीगत लागत हेतु अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूँजीगत जमा के रूप में लिया जाता है।
9.2	प्राप्त विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में अनुदानों को संबद्ध परिसंपत्तियों की लागत से कठोरी के रूप में दर्शाया जाता है।
9.3	सरकारी अनुदानों/सहायता का हिसाब बखूली के आधार पर किया जाता है।
10	विदेशी मुद्रा लेन-देन
10.1	विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए लेन-देन का हिसाब लेन-देन की तारीख को प्रचालित विनियम दर पर किया जाता है।
10.2	चाल परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋण तथा चाल देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचालित विनियम दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः लाभ/घाटे का समायोजन, यदि चाल विदेशी देयता स्थायी परिसंपत्ति से संबद्ध है तो स्थायी परिसंपत्ति की लागत पर किया जाता है और अन्य मामलों में राजस्व-आय पर किया जाता है।
11	पट्टा
	पट्टों के किराए का खर्च लीज की शर्तों के आधार पर किया जाता है।
12	सेवानिवृत्ति लाभ
12.1	कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर घेच्युटी की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त की जाती है।
12.2	कर्मचारियों को संचित अवकाश भुगतान लाभ हेतु प्रावधान इस अवधारणा पर किए तथा आकलि किए जाते हैं कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ के अनुसार इन्हें प्राप्त करने के पात्र हैं।

वित्तीय विवरण हेतु प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)  
संस्था का नाम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग

—को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए आय और खर्च के भाग के रूप में अनुसूचियाँ  
परिशिष्ट 25— संभाव्य देयता एवं लेखों से संबंधित नोट (निदर्शी)

(राशि रु. में)

1.	संभाव्य देयता		
	1.1 ऐसी इकाई के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में नहीं माना गया है।		
	1.2 इनके संबंध में -संस्था छारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटी -इकाई की ओर से बैंक छारा खोले गए साख-पत्र -बैंक से छूट प्राप्त बिल		
	1.3 इनके संबंध में विवादित माँग -आयकर -बिक्री कर रु. -निगम कर		
2	पूँजीगत वचनबद्धताएँ		
	पूँजीगत लेखों पर लगाया जाने वाला शेष प्राक्कलित अनुबंध मूल्य और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम)		
3	पट्टा दायित्व		
	प्लांट तथा मशीनरी के लिए वित्तीय लीज करारों के तहत किरायों के लिए भावी दायित्व		
4	मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम प्रबंधन के विचार से, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों का सामान्य व्यापार में वसूली पर एक मूल्य होता है जो कि कम से कम बैलेंस शीट में दर्शायी गई समूली राशि के बराबर होता है।		
5	कराधान		
	यह देखते हुए कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर घोष्य कोई आय नहीं है, आयकर हेतु कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।		
6	विदेशी मुद्रा लेन-देन		
	6.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात मूल्य - परिष्कृत वस्तुओं की खरीद - कच्चा माल तथा घटक (आवागमन को शामिल करते हुए) -पूँजीगत वस्तुएँ -भण्डार, स्पेयर तथा उपभोज्य		
	6.2 विदेशी मुद्रा में खर्च क) यात्रा ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किए गए प्रेषण एवं व्याज ग) अन्य खर्च - बिक्री पर प्रतिबद्धता - विधिक और व्यावसायिक खर्चे - विविध खर्चे		
	6.3 आय एफओबी आधार पर निर्यात मूल्य		
	6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक लेखा परीक्षक— -कराधान मामलों के लिए -प्रबंधन सेवाओं के लिए -प्रमाणन के लिए -अन्य		
7	जहाँ भी आवश्यक प्रतीत हुआ, विगत वर्ष के संबंधित ऑकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।		
8	अनुसूची 1 से 25 संलग्न की गई हैं और ये .....की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का एक अभिव्यक्ति हिस्सा हैं।		

झार्षीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग

-को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (।)

11) एम.सी.एम.डॉ.आर्द्ध. के अधिकारियों/कर्मचारियों से पुनर्व्युत्पत्ति				1) स्टेशनरी			
12) बैकर वस्तुओं को विक्री/बोली से प्राप्तियाँ				11) नुस्खा			
13) अवय				12) फ्रैशर			
2. ज्ञान/ज्ञान प्राप्तियाँ				13) विविध और अन्य सर्वे			
क) कर्मचारियों को अधिक भुगतान की पुनर्व्युत्पत्ति				क. कर्मचारियों चर्चे			
1. आवास भवन के लिए अधिन				ख. अन्य विविध सर्वे			
2. मोटर कार/व्हिक्सिंगत कम्प्यूटर के लिये अधिन				ग. राजसभा (हिन्दी) की प्रस्तुति हेतु जर्ब			
3. स्कूटर/बोटर साइकिल के लिये अधिन				12. जल एवं विद्युत सर्वे			
4. अवय अधिन				13. अखंकता और अनुसाधन क. अवय			
i) साइकिल/पर्स के लिये अधिन				ख. नवाचारी और उपकरण—कम्प्यूटर, सर्वर और अन्य आईटी लंगायन			
ii) नेहिकल अधिन				ग. एकीकरण और जुड़ाव			
iii) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को भुगतान लिये गये जी.पी.एफ. अधिन की कटौती				घ. वाहन			
ज) आकर्षित अधिन की पुनर्व्युत्पत्ति				इ. अन्य (विनिर्दिष्ट सर्वे)			
1. दीपोडल्यूडी को अधिन				14. गेडेल और लॉरिकॉट			
2. हीएडीपी को अधिन				15. अतिव्य सत्कार सर्वे			
3. आपूर्तिकर्ताओं को अधिन				16. लेका परीका शैक्षक			
4. अवय अधिन				17. कावूली चर्चे			
1. एनआईएसआई				18. बीमा			
ii. अधिकारी				19. अल्पसंख्यक शिक्षा पर अनुसाधन			
ग) अन्य जन्मा				20. प्रशिक्षण चर्चे			
1. प्रतिशृद्धि जन्मा				21. शुल्क			
2. बवाना तांशि जन्मा				22. असोध्य एवं संदिध्य झण/ अधिन हेतु प्रावधान			
3. कोड अवय जन्मा				23. लट्टेजाते डाले लेने व शेष जो पुनर्व्युत्पत्ति योग्य न हो			
i) किए गए प्रतिशृद्धि जन्मा की कटौती				24. पैकिंग प्रभार			
(ii) प्रेषण की पावती				25. भाहा और प्रेषण चर्चे			
(k) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों से जी.पी.एफ. की पुनर्व्युत्पत्ति				26. अन्य (विनिर्दिष्ट कर्वे)			
(ख) लाइसेंस परीक्षा				27. क) प्रतिनियुक्ति पर कान करने वालों को छुट्टी का वेतन और पेशन अंशदान			
(ग) आयकर				ख) एम.सी.एम.डॉ.आर्द्ध. कर्मचारियों को छुट्टी का वेतन और पेशन अंशदान			
(घ) बिक्री कर				28. भविष्य निधि अंशदान			
(ङ.) केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना				29. अन्य अंशदान			
(च) डाक जीवन बीमा				(ग) उद्दिष्ट निधि/ धर्मदाया/अन्य निधियों से किए गए निवेश और जन्मा			
				-स्पष्ट बैंग्स विद्या जाए			
				(घ) कर्मचारियों को अधिन			
				1. आवास भवन के लिए अधिन			
				2. मोटर कार/व्हिक्सिंगत कम्प्यूटर के लिये अधिन			
				3. स्कूटर/बोटर साइकिल के लिये अधिन			

(b) केंद्र सरकार कर्मचारी सामूहिक दीमा योजना	4. अव्य अधिन
(c) अव्य प्राप्तिवार्ता	1) साइबिल/पर्से के लिये अधिन 11) मैट्रिक्स अधिन 111) प्रतिनियुक्ति पर दोनों कर्मचारियों को जी.पी.एफ.
1) एन.सी.एम.डे.आई. कर्मचारियों का जी.पी.एफ. 2) एन.सी.एम.डे.आई. कर्मचारियों की सामूहिक दीमा योजना	(d) आकर्षित अधिन
II अनावर्ती	1. सोपोकल्ट्यूही को अधिन 2. डॉउटीपी को अधिन 3. आप्प्रेक्टोअॉ को अधिन 4. अव्य अधिन 1. एनआईसी/एनआईसीएसआई 11. अधिकारी
III उधार लो गई राशि	III. संपदा विदेशालय
IV अनुसूचियों जै वर्णित भवों में से किसी भव से अव्य प्राप्तिवार्ता (खीरा है)	(d) जमा 1) प्रतिशूल जमा 2) बदाना राशि जमा 3) कोई अव्य जमा 4) प्रतिशूल जमा 5) अव्य सामाजिक योजना 1) प्रतिनियुक्ति पर दोनों कर्मचारियों से व्युत्पन्न गदा जी.पी.एफ./जी.पी.एफ. इत्यादि 2) लाइसेंस फीस 3) आवकर 4) विकोकर 5) केंद्र सरकार द्वारा दीमा योजना 6) डाक जीर्णन दीमा 7) केंद्र सरकार कर्मचारी सामूहिक दीमा योजना 8) आवास अवन अधिन 9) भोट कांग्रेसित गत कम्पनी के लिये अधिन 10) रक्कूट/भोट साईकेल के लिये अधिन 11) अव्य व्युत्पत्तिया 1) एन.सी.एम.डे.आई. कर्मचारियों का जी.पी.एफ. 11) एन.सी.एम.डे.आई. कर्मचारियों की सामूहिक दीमा योजना 111) अव्य पर व्याज iv) सिविध
	(g) अशदान
	1) पैशन और घोटाली 2) छुट्टी का वेतन और पैशन अशदान 3) अव्य अशदान (स्पष्ट किया जाए) (ii) अनावर्ती पूँजीगत व्यव-अधल संपालत्वों और पूँजी पर कर्म प्रगति पर 1) भवित 2) भवन (बव विभाग) 3) पर्सोनल और प्रूफ्नार 4) नशीली और अपकर्ता 5) भोट चाहन 6) पुस्तक और प्रकाशन 7) कम्पनी राशि और अव्य आई.टी. रोमायन 8) नेप विभाग 9) रिगिस्ट्रेशन

				अ.) इलेक्ट्रॉनिक 9) अब्द (स्पष्ट करें)			
				III. अधिकारीय धन/मालों की वापसी - स्पष्ट ब्यौदा दिया जाए।			
				IV. वित्तीय प्रभाव (व्यापार)			
				V. अब्द भुगतान (स्पष्ट करें)			
				VI. विभिन्न परिवारों के लिए किसी भी पद किया गया बोई अब्द भुगतान (ब्यौदा है)			
				VII. अनुस्थिरों में उत्तिकृत भवों में से किसी भी पद किया गया बोई अब्द भुगतान (ब्यौदा है)			
				अंतिम होम 1) उपलब्ध राशि 2) ऐक जै जना राशि क) आद् खातों जै आ) जना खातों जै ग) बचत खातों जै			
				कुल रोग			

[सं. का. 7-12/2005-एव.सी.]

मुश्तिल कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Secondary and Higher Education)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

**G.S.R. 554(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of sub-section (2) of section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005) and in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as required under sub-section (1) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Rules, 2006, namely :—

**I. Short Title and commencement**—(1) These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the National Commission for Minority Educational Institutions (Annual Statement of Accounts) Rules, 2006, for Form 'A', the following form shall be substituted, namely :**

Form—A  
[See Clause 3 (4)]  
The National Commission for Minority Educational Institutions  
**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**  
Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
**BALANCE SHEET AS AT**

(Amount-Rs.)			
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current year	Previous year
CORPUS/CAPITAL FUND	1		
RESERVES AND SURPLUS	2		
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3		
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7		
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8		
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9		
INVESTMENTS-OTHERS	10		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11		
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
<b>TOTAL</b>			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED**

(Amount-Rs.)			
INCOME	Schedule	Current Year	Previous year
Income from Sales/Services	12		
Grants/Subsidies	13		
Fees/Subscriptions	14		
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15		
Incomes from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		
Other Income	18		
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19		
<b>TOTAL (A)</b>			
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	20		
Other Administrative Expenses etc.	21		
Expenditure of Grants, Subsidies etc.	22		
Interest	23		
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)			
<b>TOTAL (B)</b>			
<b>Balance being excess of Income Over Expenditure (A-B)</b>			
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve			
<b>BALANCE OF SURPLUS (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL/OTHER FUNDS(SPECIFY)</b>			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED**

(Amount - Rs.)		
SCHEDULE I – CORPUS/CAPITAL FUND	Current Year	Previous year
Balance as at the beginning of the year		
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the		

Income and Expenditure Account  
BALANCE AS AT THE YEAR – END

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS:	Current Year	Previous year
1. Capital Reserve:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
3. Special Reserve:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
4. General Reserve:		
As per last Account		
Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
<b>TOTAL</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount – Rs.)

	Fund Wise Break up				TOTAL	
<b>SCHEDULE 3 – EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	Fund ww	Fund xx	Fund yy	Fund zz	Current Year	Previous year
a) opening balance of the funds						
b) Additions to the Funds:						
i) Donations/grants						
ii) Income from investments made on account of funds						
iii) Other additions (specify nature)						
<b>TOTAL (a + b)</b>						
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure						
- Fixed Assets						
- Others						
<b>TOTAL</b>						
ii. Revenue Expenditure						
- Salaries, Wages and allowances etc.						
- Rent						
- Other administrative Expenses						
<b>Total</b>						
<b>Total (c)</b>						
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b+c)</b>						

**Notes**

- 1) Disclosures shall be made under relevant heads on conditions attaching to the grants.  
2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not be mixed up with any other Funds.

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount – Rs.)

	Current year	Previous year
<b>SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND BORROWINGS:</b>		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:		
a) Term Loans		
- Interest accrued and due		

1. Other Loans (Specify)		
2. Interest accrued and due		
3.		
4.		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Other (Specify)		
<b>TOTAL</b>		

Note: Amounts due within one year

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

	(Amount – Rs.)	
	Current year	Previous year
<b>SCHEDULE 5 – UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>		

Note: Amounts due within one year

	Current year	Previous year
<b>SCHEDULE 6 – DEFERRED CREDIT LIABILITIES:</b>		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital and other assets		
b) Others		
<b>TOTAL</b>		

Note: Amounts due within one year

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

	Current year	Previous year
<b>SCHEDULE 7 – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>		
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors:		
a) For Goods		
b) Others		
3. Advances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings		
b) Unsecured Loans/borrowings		
5. Statutory Liabilities		
a) Overdue		
b) Others (Specify)		
6. Other current Liabilities		
Income Tax		
CGHS		

Licence Fee			
CGEIS			
GPF			
PCA			
Sc. Adv.			
Society Dues			
Sales tax			
Postal Life Insurance			
Recoveries of Loans and advances			
Ministry of Railways for HOR forms			
Indian Airlines for Air exchange Order forms			
Security deposit			
Earnest money deposit			
Others (Specify)			
<b>TOTAL (A)</b>			

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

<b>B. PROVISIONS</b>			
1. For Taxation			
2. Pension, Gratuity and other retirement benefits			
NCMEI Provident Fund			
1. Opening Balance			
2. Subscription			
3. Recovery of Advance			
4. Interest			
Total			
(Less) Payment/investments			
NCMEI Employees Group Insurance Scheme Fund			
Saving Fund			
1. Opening Balance			
2. Subscription			
3. Recovery of Advance			
4. Interest			
Total			
(Less) Payment/investments			
Insurance			
1. Opening Balance			
2. Subscription			
3. Recovery of Advance			
4. Interest			
Total			
(Less) Payment/investments			
NCMEI Pension & Other Retirement Benefits Fund			
1. Opening Balance			
2. Subscription			
3. Recovery of Advance			
4. Interest			
Total			
(Less) Payment/investments			
<b>Grand Total</b>			

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount-Rs.)

3. Accumulated Leave Encashment			
4. Trade Warranties/Claims			
5. Others (Specify)			
Security Deposit			
Earnest Money Deposit			
Others			
<b>TOTAL (B)</b>			
<b>TOTAL (A+B)</b>			

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
 Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
 SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount-Rs.)

## SCHEDULE 8 – FIXED ASSETS

Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/ valuation As at beginning of the year	Additi- ons during the year	Deduc- tions during the year	Cost/Valua- tion at the year-end	As at the Beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions During the year	Total up To the Year-end	As at the Current Year-end	As at the Previous Year-end
<b>A. FIXED ASSETS</b>										
1. LAND:										
a) Freehold										
b) Leasehold										
2. BUILDINGS:										
a) On Freehold land										
b) On leasehold land										
c) Ownership flats/Premises										
d) superstructure on land not belonging to the entity										
e) Renovation of rented premises										
f) Others										
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT										
4. VEHICLES										
5. FURNITURE, FIXTURES										
6. OFFICE EQUIPMENT										
7. COMPUTER/PERIPHERALS										
8. ELECTRIC INSTALLATION										
9. LIBRARY BOOKS										
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY										
11. OTHER FIXED ASSETS										
12. GIFTED/DONATED ASSETS										
<b>TOTAL OF - CURRENT YEAR</b>										
<b>PREVIOUS YEAR</b>										
<b>B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS</b>										
<b>TOTAL</b>										
(Not to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)										

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
 Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
 SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount -Rs.)

## SCHEDULE 9 – INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

## CURRENT YEAR

## PREVIOUS YEAR

1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
<b>TOTAL</b>		

## SCHEDULE 10 – INVESTMENTS – OTHERS

## CURRENT YEAR

## PREVIOUS YEAR

1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
<b>TOTAL</b>		

**FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**  
**Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_**

(Amount -Rs.)

<b>SCHEDULE II – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b>		<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>A. CURRENT ASSETS:</b>			
1. Inventories:			
a) Stores and Spares			
b) Loose Tools			
c) Stock-in-trade			
Finished Goods			
Work-in-progress			
Raw Materials			
2. Sundry Debtors:			
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months			
b) Others			
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)			
4. Bank Balances:			
a) With Scheduled Banks:			
- On Current Accounts			
- On Deposit Accounts (includes margin money)			
- Savings Accounts			
b) With non-Scheduled Banks:			
- On Current Accounts			
- On Deposit Accounts			
- On Savings Accounts			
5. Post Office-Savings Accounts			
<b>TOTAL (A)</b>			

**FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**  
**Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_**

(Amount -in -Rs.)

<b>SCHEDULE II – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)</b>		<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>			
1. Loans:			
a) Officers & Staff			
1. Housing Building Advance			
2. Motor Car/P.C. Advance			
3. Scooter/M. C. Advance			
4. Other Advances			
i. Cycle/Fan Advance			
ii. Medical Advance			
iii. GPF to deputationists			
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity			
c) Other (Specify)			
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value of			
a) On Capital Account			
1. Advance to CPWD			
2. Advance to DAVP			
3. Advance to Suppliers			
4. Other Advances			
i. NIC/NICSI			
ii. Officers			
iii. Dte. Of Estates			
5. Others			
b) Prepayments			
1. Advance to CPWD			
2. Advance to DAVP			
3. Advance to Suppliers, or periodicals etc.			
4. Other Advances			
i. NIC/NICSI			
ii. Officers			

iii) Dte. Of Estates		
5. Others		
<b>C) Others</b>		
i) Security deposit		
ii) Earnest Money		
iii) Others		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount -in -Rs.)

<b>3. Income Accrued:</b>		
a) <b>On Investments from Earmarked/Endowment Funds</b>		
a) Face Value of Investments encashed		
b) Interest on investments		
(c) Others (including Security Deposit/Earnest Money)		
b) <b>On Investments – Others (Specify)</b>		
c) <b>On Loans and Advances</b>		
1. Housing Building Advance		
2. Motor Car/P. C. Advance		
3. Scooter/M. C. Advance		
4. Other Advances		
i. Cycle/Fan Advance		
ii. Medical Advance		
iii. GPF to deputationists		
d) <b>others (includes income due unrealized)</b>		
(i) Interest receipts on cash at Bank		
(ii) Interest receipt on advances to employees		
(iii) Sale of Publications		
(iv) Fees charged by the Commission		
(v) Contribution of Medical & Health care beneficiaries		
e) <b>Miscellaneous Receipts</b>		
1) Court Award		
2) Sale of Newspaper		
3) Recovery of overpaid salaries		
4) Value of un-en-cashed cheques written back		
5) Recovery of Telephone Charges		
6) Sale of old cars		
7) Value of un-returned books		
8) Refund of Assistance		
9) Refund of leave encashment paid		
10) Forfeiting of Security deposit/Earnest money deposit		
11) Recoveries from Officers/Staff of NCMEI		
12) Receipts on account of sale/auction of condemned items		
13) Others		
f) <b>Others</b>		
4. Claims Receivable		
<b>Total (B)</b>		
<b>Total (A+B)</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 12 – INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Material		
c) Sale of Scraps		
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges		
b) Professional/Consultancy Services		
c) Agency Commission and Brokerage		
d) Maintenance Services (Equipment/Property)		
e) Others (Specify)		
<b>Total</b>		

SCHEDULE 13 – GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government (s)		
3. Government Agencies		
4. Institutions/Welfare Bodies		
5. International Organizations		
6. Others (Specify)		
<b>Total</b>		

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_  
(Amount in Rs.)

SCHEDULE 14 – FEES/SUBSCRIPTIONS	Current year	Previous year
1. Entrance Fees		
2. Annual Fees/Subscriptions		
3. Seminar/Program Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Others (Specify)		
6. Fees under the Right to Information Act		
<b>Total</b>		

Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed.

SCHEDULE 15 – INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Investment From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
1. Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other bonds/Debentures				
2. Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents				
4. Others (Specify)				
<b>Total</b>				
<b>Transferred to earmarked/endowment funds</b>				

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_  
(Amount in Rs.)

SCHEDULE 16 – INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous year
1. Income from Royalty		
2. Income from Publications		
3. Others (Specify)		
<b>Total</b>		
SCHEDULE 17 – INTEREST EARNED	Current Year	Previous year
1. On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2. On Saving Accounts:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3. On Loans:		
a) Employees/Staff		
b) Others		
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
<b>Total</b>		
<b>Note:</b> Tax deducted at source to be indicated		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 18 – OTHER INCOME	Current year	Previous Year
1. Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Export Incentives realized		
3. Fees for Miscellaneous Services		
4. Miscellaneous Income		
i) Court Award		
ii) Sale of Newspaper/Waste paper		
iii) Recovery of overpaid salaries		
iv) Value of uncashed cheques written back		
v) Recovery of Telephone Charges		
vi) Sale of old Cars		
vii) Value of un-returned books		
viii) Refund of Assistance		
ix) Refund of leave encashment paid		
x) Forfeiting of Security deposit/Earnest money deposit		
xi) Recoveries from Officers/Staff of NCMEI		
xii) Receipts on account of sale/auction of condemned items		
xiii) Others		
<b>Total</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 19 – INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current year	Previous Year
1. Closing stock		
a) Finished Goods		
b) Work-in-progress		
2. Less: Opening Stock		
a) Finished Goods		
b) Work-in Progress		
<b>Net Increase/ (Decrease) (1-2)</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 20 – ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
1. Salaries		
a) Salaries (Chairperson & Members)		
b) Salaries (Officers & Establishment)		
2. Wages		
3. Payment for Professional & Other Services		
4. Travel Expenses		
(i) Foreign Travel		
(ii) Domestic Travel		
5. Overtime allowance & Bonus		
6. Medical and Health care facilities		
7. Other Establishment charges		
(i) Leave Travel Concession		
(ii) Tuition Fee		
8. Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits		
(i) Computation of pension		
(ii) Leave Encashment		
(iii) Gratuity		
(iv) Insurance		
(v) Other Retirement Benefits		
9. a) Leave Salary & Pension contribution of Deputationists		
b) Leave salary & Pension contribution to NCMEI employees		
10. Provident Fund contribution		
11. Other contributions		
12. Staff Welfare Expenses		
13. Other (Specify)		
<b>Total</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 21 -OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
1. seminar/Conference Charges		
2. Assistance to other Organizations		
3. Telephone & Fax Expenses		
4. Rent Rates and Taxes		
5. Newspaper/Periodicals/Subscriptions		
6. Advertisement and Publicity		
7. Postage & Telegram		
8. Liveries		
9. Stationery & Printing		
i. Stationery		
ii. Printing		
10. Publication		
11. Purchases & Other Misc. Expenses		
a) Office Expenses		
b) Other Misc. Expenses		
c) Expenses for Promotion of Official Language (Hindi) (EPOL)		
12. Water & electricity charges		
13. Repair & Maintenance		
a) Building		
b) Machinery & Equipment – Computers, Servers & other IT resources		
c) Furniture & Fixtures		
d) Vehicles & maintenance		
e) Others (Specify)		
14. Petrol & Lubricants		
15. Hospitality Expenses		
16. Audit Fees		
17. Legal and other professional expenses		
18. Insurance		
19. Research on Minority Education		
20. Training expenses		
21. Fees		
22. Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		
23. Irrecoverable Balances Written-off		
24. Packing Charges		
25. Freight and Forwarding Expenses		
26. Others (specify)		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

(ii) CAPITAL EXPENDITURE NON-RECURRING		
1) Land		
2) Building (Renovation)		
3) furniture & Fixtures		
4) Machinery & Equipment		
5) Motor vehicles		
6) Books & Publications		
7) Computer, Server & Other IT Resources		
8) Renovation		
a) Civil		
b) Electrical		
9) Others (Specify)		
Total		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 22 – EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions/Organizations		
b) Subsidies given to Institutions/Organizations		
Total		

Note: Names of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE 23 – INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including Bank Charges)		
c) Others (Specify)		
<b>Total</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity: National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

## Schedule 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION	The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of account.
2. INVENTORY VALUATION	<p>2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.</p> <p>2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.</p>
3. INVESTMENTS	<p>3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.</p> <p>3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.</p> <p>3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer charges.</p>
4. EXCISE DUTY	Liability for excise duty in respect of good produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture goods as at the year-end.
5. FIXED ASSETS	<p>5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses relates to acquisition. In respect of projects involving construction, relates pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.</p> <p>5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, other than towards the corpus Fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.</p>
6. DEPRECIATION	<p>6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.</p> <p>6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.</p> <p>6.3 Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.</p>
7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE	Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.
8. ACCOUNTING FOR SALES	Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity: National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES	<p>9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.</p> <p>9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.</p> <p>9.3 Government grants subsidy are accounted on realization basis.</p>
10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS	<p>10.1 Transactions denominated in foreign currency-loans are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.</p> <p>10.2 Current assets, foreign currency and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.</p>
11. LEASE	Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
12. RETIREMENT BENEFITS	<p>12.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.</p> <p>12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.</p>

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

**SCHEDULE 25 -- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)**

		Current year	Previous year
<b>1. CONTINGENT LIABILITIES</b>			
1.1 Claim against the Entity not acknowledged as debts			
1.2 in respect of			
- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity			
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity			
- Bills discounted with banks			
1.3 Disputed demands in respect of			
- Income tax			
- Sales tax Rs.			
- Municipal Taxes			
<b>2. CAPITAL COMMITMENTS</b>			
Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)			
<b>3. LEASE OBLIGATIONS</b>			
Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to			
<b>4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES</b>			
In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the balance sheet.			
<b>5. TAXATION</b>			
In view of there being no taxable income under Income tax Act 1961, no provision for income tax has been considered necessary.			

## FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity:- National Commission for Minority Educational Institutions

SCHEDULES FORMING PART OF INCDME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount in Rs.)

<b>6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS</b>			
6.1 Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis			
- Purchase of finished Goods			
- Raw Materials & Components (including in transit)			
- Capital Goods			
- Stores, Spares and Consumables			
6.2 Expenditure in foreign currency			
a) Travel			
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency			
c) Other expenditure:			
- Commission on Sales			
- Legal and Professional Expenses			
- Miscellaneous Expenses			
6.3 Earnings:			
Value of Exports on FOB Basis			
6.4 Remuneration to auditors:			
As Auditors			
- Taxation matters			
- For Management services			
- For certification			
- Others			
7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary			
8. Schedule I to 25 are annexed to an from an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.			

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED

RECEIPTS	PLAN	NON-	CURRENT	PREVIOUS	PAYMENTS	PLAN	NON-	CURRENT	PREVIOUS
	(Rs.)	PLAN	NON-PLAN	YEAR	YEAR		PLAN	NON-PLAN	YEAR
	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees		Rupees	Rupee	Rupees	Rupees
<b>I. Opening Balance</b>					<b>I. RECURRING</b>				
i) Cash in hand					A. Establishment expenses Corresponding to Scheduled 20				
ii) Cash at Bank					1. Salaries				
a) in current accounts					a) Salaries (Chairperson & Members				

b) in deposit accounts				b) Salaries (Officers & Establishment)			
c) in saving accounts				2. Wages			
2. GRANTS-IN-AID from				3. Payment for professional & Other services			
i) Ministry of Human Resource Development				4. Travel Expenses			
- Recurring				i) Foreign Travel			
- Non-Recurring				ii) Domestic Travel			
ii) Other Sources				5. Overtime allowances & bonus			
- Recurring				6. Medical and Health care facilities			
- Non-Recurring				7. Other Establishment charges			

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON-PLAN	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	PLAN	NON-PLAN	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
TOTAL B/F									
3. Receipt of the Commission					i) Leave Travel Concession				
- Recurring					ii) Tuition Fee				
i) Income on investments from earmarked /Endowment/other funds					8. Expenses on Employees' Retirement & Terminal Benefits				
a) Face value of investment encashed					i) Commutation of pension				
b) Interest of investments					ii) Leave Encashment				
c) others					iii) Graduity				
i) Revenue Receipts					iv) Insurance				
a) Interest receipts on cash at bank					v) Other Retirement benefits				
b) Interest receipt on advances to employees					9. a) Leave salary & Pension contb. Of deputationists				
c) Sale of publications					b) Leave salary & Pension contb. Of NCMEI employees				
d) Fees charged by the Commission					10. Provident Fund Contb.				
e) Contribution of Medical & Health care beneficiaries					11. Other contributions				
					12. Staff Welfare expenses				
					13. Others (Specify)				
(f) Miscellaneous Receipts					Administrative & other expenses				
1) Court Award									
2) Sale of newspaper					1. Seminar/Conference charges				
3) Recovery of overpaid salaries					2. Assistance to other organizations				

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON-PLAN	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	PLAN	NON-PLAN	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
TOTAL B/F									
4) Value of uncashed cheques written back					3. Telephone & Fax Expenses				4) Value of uncashed cheques written back
5) Recovery of Telephone charges					4. Rent Rates and Taxes				5) Recovery of Telephone charges
6) Sale of old cars					5. Newspaper/Periodicals				6) Sale of old cars

7) Value of un-returned books				6. Advertisement and Publicity			
8) Refund of Assistance				7. Postage & Telegram			
9) Refund of leave encashment paid				8. Liveries			
10) Forfeiting of security deposit/Earnest money deposit				9. Stationery & Printing			
11) Recoveries from officer/Staff NCMEI				i) Stationery			
12) Receipts on account of sale/auction of condemned items				ii) Printing			
13) Others				10. Publication			
ii) Debt/Deposit Receipts							
(a) Recovery of Advance to staff				11. Misc. & Other Expenses			
1. House Building Advance				a) Office Expenses			

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON- PLAN	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR PAYMENTS	PLAN	NON- PLAN	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
TOTAL B/F								
2. Motor car/Personal Computer Advance				b) Other Misc. Expenses				
3. Scooter/Motor Cycle Advance				c) Expenses for Promotion of Official Language(Hindi) (EPOL)				
4. Other Advances				12. Water & Electricity charges				
i) Cycle/Fan Advance				13. Repair & Maintenance				
ii) Medical Advance				a) Building				
iii) Recoupment of GPF Advance paid to deputationists				b) Machinery & Equipment computers, servers & other IT resources				
(b) Recovery of Contingent Advances				c) Furniture & Fixture				
1. Advance to CPWD				d) Vehicles				
2. Advance to DAVP				e) Others (Specify)				
3. Advance to Suppliers				14. Petrol & Lubricants				
4. Other Advances				15. Hospitality Expenses				

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	PLAN	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR
i. NIC/NICSI					16. Audit Fees				
ii. Officers					17. Legal Expenses				
(c) Other Deposits					18. Insurance				
1. Security Deposit					19. Research on Minority Education				
2. Earnest Money Deposit					20. Training expenses				
3. Any Other Deposit					21. Fees				
(i) Recoupment of security deposit made					22. Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances				
Total					23. Irrecoverable Balance written off				
<b>(iv) Remittance Receipts</b>					24. Packing Charges				
(a) GPF Recoveries from deputationist					25. Freight and Forwarding Expenses				
(b) Licence Fee					26. Others (Specify)				
(c) Income Tax									
(d) Sales Tax					27. a) Leave Salary & Pension contribution of Deputationists				

(c) Central Govt. health Scheme				28) Pension contribution of NCMEI employees				
(f) Postal Life Insurance				29) Other Contributions				
(g) Central Govt. Employees Groups Insurance Scheme				(c) Investments & Deposits made				
(h) Other receipts				From Earmarked/Endowment/ Other Funds				
I) GPF of NCMEI Employees				Details to be specified				
2) NCMEI Employees Group Insurance Scheme								
II NON-RECURRING				(D) Advance to Staff				
III AMOUNT BORROWED				1. House Building Advance				
IV ANY OTHER RECEIPT FROM ANY OF THE ITEMS MENTIONED IN SCHEDULES (GIVE DE AILS)				2. Motor Car/P.C. Advance				
				3. Scooter/M.C. Advance				
				4. Other advances				
				i. Cycle/Fan advance				

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	PLAN	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR
					ii. Medical Advance				
					iii) GPF to deputationists				
					(e) Contingent Advances				
					1. Advance to CPWD				
					2. Advance to DAVP				
					3. Advance to Suppliers				
					4. Other Advances				
					i. NIC/NICSI				
					ii. Officers				
					iii. Dte. Df Estates				
					(F) Deposits				
					1) Security Deposit				
					2) Earnest Money Deposit				
					3) Any other Deposit				
					4) Security Deposit				
					(G) Other Adjustments (Remittances)				
					1) GPF/CFP etc. recovered from deputationists				
					2) Lincence Fee				
					3) Income Tax				
					4) Sales Tax				
					5) Central Govt. Health Scheme				
					6) Postal Life Insurance				
					7) Central Govt. Employees Group Insurance Scheme				
Total C/F									

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	PLAN	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR
					8) House Building Advance				
					9) Motor Car/P.C. Advance				
					10) Scooter/M.C. Advance				
					11) Other Recoveries				
					i. GPF of NCMEI employees				
					ii. NCMEI Employees Group Insurance Scheme				
					iii. Interest on Loan				
					iv. Miscellaneous				

				(H) Contributions			
				Pension & Gratuities			
				Leave Salary & Pension Contribution			
				3) Other Contributions (to be specified)			
				(II) CAPITAL EXPENDITURE NON-RECURRING – on Fixed Assets & Capital			
				Works in progress			
				1) Land			
				2) Building (Renovation)			
				3) Furniture & Fixtures			
				4) Machinery & Equipment			
				5) Motor Vehicle			
				6) Books & Publications			
				7) Computer, Server & Other IT resources			
				8) Renovation			
				a) Civil			
				b) Electrical			
				9) Others (Specify)			

**NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
RECEIPT AND PAYMENTS (I) FOR THE YEAR ENDED(Contd.)**

RECEIPTS	PLAN (Rs.)	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	PLAN	NON- PLAN	CURREN T YEAR	PREVIOUS YEAR
					III Refund of surplus money/Loans - Details to be specified				
				*	IV FINANCE CHARGES (interest)				
					V OTHER PAYMENTS (SPECIFY)				
					VI PAYMENTS MADE AGAINST FUNDS FOR VARIOUS PROJECTS - Details to be specified				
					VII ANY OTHER PAYMENTS FROM ANY OF THE ITEMS MENTIONED IN THE SCHEDULES (GIVE DETAILS)				
					Closing Balance 1) Cash in Hand ii) Cash at Bank a) in current accounts b) in deposit accounts c) in saving accounts				
<b>Grand Total</b>									

[No. F. 7-12/2005-MC]

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.